

भारत सरकार/Government of India
अंतरिक्ष विभाग/Department of Space
उत्तर-पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र/North Eastern Space Applications Centre
उमियम/Umiyam-793103, मेघालय/Meghalaya

फैक्स/Fax: 0364-2570139
फोन/Tel.: 0364-2570036
ईमेल/Email: purchase.nesac@nesac.gov.in

निविदा आमंत्रण सूचना / NOTICE INVITING TENDER

निदेशक एनई ठेकेदारो आदि, फर्मो, प्रतिष्ठित सेवा प्रदाताओ, सैक उमियम मेघालय-से निम्नलिखित के लिए दो बोली में मोहरबंद प्रस्तावों को आमंत्रित करते हैं/Director, NESAC, Umiyam, Meghalaya invites sealed offers in two bids from reputed Service Providers, Firms, Contractors etc for the following

| एनआईटी सं. / NIT No. | कार्य का नाम / NAME OF THE WORK | इएमडी() डीडी के रूप में / EMD (₹) IN THE FORM OF DD | निविदा शुल्क / TENDER FEE (₹) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| NESAC/1455/2022 | Annual Contract for providing manpower services at NESAC Umiyam for O & M Services(Civil & Electrical) | ₹ 2,50,000/-- | ₹ 500/- |

निविदा दस्तावेजो के विक्रय का दिनांक / Dates for selling of tender documents: 21.07.2022 to 04.08.2022

निविदा दस्तावेजो को जमा करने की अन्तिम तिथि व समय / Last date & Time for submission of tender documents: 04.08.2022. upto 1300 Hrs.

निविदा खोलने की तिथि, समय व स्थान / Date, Time & Venue of Bid Opening: 04.08.2022 at 1500 Hrs at एनईसैक, उमियम/ NESAC, UMIAM

Instructions to Tenderers:

- For full details and terms and conditions etc., please see the enclosed Annexures.
- Tender documents can be obtained from the Purchase Officer, NESAC, Umiyam.
- Tender Fee shall be paid in form of CROSSED Demand Draft only. The Demand Draft should be in favor of Director, NESAC drawn on State Bank of India, Umiyam (branch Code 2010). The Tender Fee is NON-REFUNDABLE. Your request letter along with Tender Fee may be addressed to the Purchase Officer as indicated above.
- Interested tenderers may, at their option, download the tender documents from the NESAC website www.nesac.gov.in and submit the Tender Document along with the prescribed tender fee as per details given in the tender notification.
- While requesting for Tender Documents, please superscribe on the cover as "Request for Tender document against Tender Notice No. **NESAC/1455/2022**
- Tender Document received after the due date/time will not be considered.
- While sending sealed quotation/offer superscribed respective Tender Number and Due Date on the envelope.
- NESAC, UMIAM is not responsible for any postal delays/loss of documents in transit.
- If the date specified for submission/opening of tenders is declared as a holiday abruptly, the due date for submission/opening of the tenders in such cases shall be postponed automatically to the next working day.
- Director, NESAC reserves the right to accept or reject any/or all the quotations/Expression of Interest in part or full.
- All pages forming part of the tender documents should be duly signed, stamped and submitted to NESAC. Pages not signed and stamped will be considered invalid and rejected.**

Dated: 20.07.2022

Sd/-
निदेशक, एनईसैक / Director NESAC